



Moving Every Mile With A Smile

संवद

Maheshwari Logistics Ltd.



Coal



Logistics



Paper

January-March 2022
ISSUE 14

अतिरोषणश्वक्षुभानन्ध एव जनः ॥

An exceedingly angry person is blind even when possessing eyes.



स्पर्श

Resolution - संकल्प

इस विषय पर पिछले अंक में आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी। जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा रेस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला नहीं मुझे। आशा है अगली प्रतियोगिता में आप और ज्यादा आगे बढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस विषय पर आप सभी के साथ मेरे कुछ विचार साझा करना चाहूँगी।

संकल्प का अर्थ है कि किसी अच्छी बात को करने का दृढ़ निश्चय करना। सनातन धर्म में किसी भी पूजा-पाठ, अनुष्ठान या जाप करने से पहले संकल्प करना अति आवश्यक होता है, और बिना संकल्प के शास्त्रों में पूजा अधूरी मानी गयी है, हमें इसका महत्व सिखाने के लिए।

जब हम संकल्प लेते हैं तो इससे हमारे मन में एक आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। दरअसल, हम किसी ना किसी रूप में खुद को बेहतर बनाने की एक पहल करते हैं और अपने भीतर की निकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करते हैं।

हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उन कमियों को देखकर उसे दूर करने की पहल कर रहे हैं। ऐसे में हम अपनी खूबियों व खामियों से वाकिफ हो पाते हैं। इतना ही नहीं, संकल्प लेने से हम उस कमी को दूर करने के लिए खुद से मेहनत करने का वादा भी करते हैं।

जीवन में अनुशासन होना बेहद जरूरी है। पर अधिकतर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम रिजॉल्यूजन लेते हैं तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं अपना एक रूटीन सेट करते हैं। जिससे हम अधिक अनुशासित जीवन जी पाते हैं। साथ ही खुद को कंटोल करने की कला भी हमारे भीतर विकसित होती है।

विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए।
संकल्प एक ही काफ़ी है, मंजिल तक जाने के लिए ॥

Mukta Maheshwari
Editor - Samvad



नमस्ते दोस्तों,

उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। हम फिर फाइनेन्शियल ईयर की समाप्ति पर आ चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं इस बार हमने हर विभाग में कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं कम्पनी की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे खुशी है आपने सारे बदलावों को सकारात्मक तरीके से अपनाया और इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दिया। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि आप जैसे लोग हमारी टीम में शामिल हैं।

मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बदलाव करने से क्या फर्क पड़ता है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ फर्क ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं दिखते, समय आने पर उसका असर जरूर दिखता है।

मुझे बताते हुए हर्ष है कि इस बार मार्च 2022 में अपनी पेपर फ़ैक्टरी ने दो बड़े माइल्स्टोन हासिल किए हैं।

१. हाइयरस्ट डेली प्रोडक्शन ओफ 360 MTs

२. हाइयरस्ट लोकल डिस्पैच 448.34 MTs इन वन डे

वहीं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हमने कई नए सेक्टर में काम शुरू किया और नए ट्रूक्स भी खरीदे।

कोयले की बात करें तो इस बार अपने कोल बिज़नेस ने रेकोर्ड तोड़ टर्नओवर और प्रोफ़िट किया है।

तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव छोटा-बड़ा कैसा भी हो उसका कुछ ना कुछ असर तो आता ही है चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव। खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने जैसे इस बदलाव को अपनाया है उसकी वजह से कम्पनी में उसका पॉज़िटिव असर ही आया है। आप सब टीम मेंबर्स पर मुझे गर्व है।

यूँ तो आप सबने दिल में बसाया है,
ऐसा रिश्ता है जो हमने आपसे पाया है,
आपके समर्पण और समर्थन ने ही
हमें इस सुक्राम तक पहुँचाया है ॥

Varun Kabra
MD, Maheshwari Logistics Ltd.

श्रद्धांजलि



श्री शंकरजी भगत



श्री बबून दिवेदी



श्रीमती चंदन बेन परमार



IN HOUSE TALENT

Congratulations to Garima Holani for clearing both groups of CA intermediate in first attempt



CONGRATULATIONS TO NUPUR YOGESH MISTRY FOR NAME ON BIG SCREEN !!! ☺

She has achieved a milestone in her VFX field by achieving her name on the silver screen of cinemas.

She's been working with NYVfxWaala company, a division of AJAY DEVGAN.

Her name has been featured in credit list in Bollywood movie BACHCHAN PANDEY as a CMM Artist (Camera tracking Mach Move)

She also worked on Hollywood movies like Cats, Call Of The Wild, Maleficent 2, Sonic the Hedgehog in Trace VFX Company. Currently she is working on upcoming Bollywood movie RUNWAY 34 releasing on 29th April 2022.

CHM & LAYOUT CO-ORDINATOR CMM TEAM
AMIT BHALERAO AMASH SUBHASH CHAUHAN
INTIKAH CHATTERJEE HIRALAL KUMAR
NEEL MARIKANA SUMBANA MAJUMDER
AKSHAY BALAKRISHNA DHIRAJ D THOSAR
DINESH SHANKAR SHRIWASTAV
PRABAS PARESH SHAH JUSTIN MOHIT CASEY
GAGAR CHATTERJEE SAGAR KANDORIP
ROHIT DHWENDHAR SINGH NAZEM MULAWAR
GANESH HYEAR NUPUR YOGESH MISTRY
KOKIL BABU ROMEEDY VENKATESHDY



Congratulations to Mahima Maheshwari for Presidency of Maheshwari Mahila Mandal, Vapi



Mukta Maheshwari was felicitated by Birla Open Minds International School Of Vapi on Women's Day



खाना खजाना



सामग्री: दूध- 2 लीटर, ब्रेड- 1 पैकेट,

चीनी- स्वादानुसार

विधि: सबसे पहले दूध को भारी पेंडे वाले बर्तन में आधा होने तक पका लें। चम्मच से लगातार हिलाते रहें। फिर उसमें चीनी मिला कर रबड़ी तैयार कर लें। ब्रेड को कटोरी से गोल काट लें और उसे तेल में हल्का भूरा होने तक तल लें। तली हुई ब्रेड पर रबड़ी लगा कर उसे कटे हुए बादाम पिस्ता व केसर से सजा कर परोसें।

शाही टोस्ट



कविता राठी,
मुम्बई

Poonam Dhoot was awarded by Smt Kashmira Shah, President of Vapi Nagarpalika, for different activities done for the well-being of city, society and less privileged people.



सच्चा दोस्त

एक बार मेरी और दोस्त की बात चल रही थी। बात इस मुद्दे पर अटक गयी कि कौन सच्चा दोस्त और मददगार होता है, कौन नहीं। मैंने उससे पूछा की तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है? उसने फाटक से जवाब दिया बहुत हैं। मैंने उससे चार दोस्तों के नाम बताने को कहा जिनके नाम उसे मुसीबत के समय तुरंत याद आएँगे। दस मिनट सोचने के बाद बड़ी मुश्किल से एक नाम लिया। मुझे लगा कि वह नाम भी उसने इस शार्मिंदी से बचने के लिए लिया कि मैं यह न कह दूँ कि तेरा तो एक भी सच्चा दोस्त नहीं है।

चर्चा आगे बढ़ी तो साथी ने सवाल दागा कि फिर सच्चा दोस्त कौन है? मैंने उसे बताया कि जब हम मुसीबत में हो तो सबसे पहले जिस आदमी का नाम हमें याद आए वही हमारा असल दोस्त है। मजे की बात तो यह है कि कई बार यह वो व्यक्ति होता जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं।

सच्चा दोस्त वही है जिस से हम अंतरग से अंतरग बाते भी बेहिचक साझा कर सकें।

पर आजकल हर दूसरे आदमी से हमें डर लगता है कि कहीं वह हमारे नाम का गलत फायदा न उठाले, हमारी चुगली न कर दे या हमें नुकसान न पहुंचा दे। क्या विश्वास है कि जिसे हम दोस्त कह रहे हैं, उसी से डर रहे हैं। जिसके साथ हम समय बिता रहे हैं उससे भी खुल नहीं पा रहे हैं कई बार हम दोस्ती और चाटुकारिता में फर्क नहीं कर पाते हैं। असल दोस्त वो है जो आपके मुँह पर सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखता हो।

हम दोस्त भी कह रहे हैं और उससे ईश्या भी कर रहे हैं कि कहीं वह हमसे आगे न निकला जाए। कितने दोस्त ऐसे हैं जो दोस्त को खुद से आगे निकलता देख खुश होते हैं? जिन्दगी में किसी भी मोड़ पर सिर्फ एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो वह हज़ार के बराबर है।

वह सभी हीरों में कोहिनूर है।



बलबीर सिंह राठौड़, सूरत

आप अपने हुनर को इस पते पर भेज सकते हैं, या priyapadhyaympl@gmail.com पर मेल कीजिए।

Priyanka Dubey, MLL House, Shed No A2-3/2, Opp. UPL, 1st Phase, GIDC, VAPI - 396 195. Mobile No. 98243 02806

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने का क्या है अंतर ?

पहला अंतर: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींच कर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोल कर फहराया जाता है। यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है जब प्रधानमंत्रीजी ने ऐसा किया था। संविधान में इसे ध्वजारोहण (Flag Hoisting) कहा जाता है।

जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोल कर फहराया जाता है। संविधान में इसे झंडा फहराना (Flag Unfurling) कहा जाता है।

दूसरा अंतर: स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था इसलिए 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्रीजी ध्वजारोहण करते हैं। इस दिन शाम को राष्ट्रपतिजी अपना सन्देश राष्ट्र के नाम देते हैं।

जबकि 26 जनवरी जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपतिजी झंडा फहराते हैं।

तीसरा अंतर: स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है। जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है।



रामवतार काबरा, कोलकाता
द्वारा संकलित

Resolution - मेरा संकल्प



मेरा संकल्प,

- खुद को shape में लाना,
- हफ्ते में एक दिन mobile बंद करना
- Text Message की जगह call करना
- ज्यादा gossip ना करना
- दुसरों की तारीफ करना

Congratulations to
Poonam Dhoot for
winning
“नव वर्ष के लिए मेरा संकल्प”
competition

REOUTNS

अरे नहीं, ये मेरा 2022 का संकल्प बिलकुल भी नहीं है...

मैं सफल होना चाहती हूँ कैसे? आइए बताती हूँ...

सफलता से खुशी नहीं मिलती बल्कि खुश रहने से सफलता मिलती है। और मैं किसी छोटे बच्चे की तरह निश्चल शिलस्विलाकर हँसना और हँसाना चाहती हूँ। क्योंकि एक अच्छी हँसी आपको खुद के और आस पास के लोगों के बारे में अच्छा महसूस कराती है और तत्काल खुशी देती है।

क्या आपने कभी लोगों को सुबह-सुबह पार्क में इकट्ठा होकर हाथ को उपर हवा में उठाकर हृदय से हँसते हुए देखा है? ये सिद्ध हो चुका है कि हँसना ही सेहत के लिए सबसे अच्छी दवा है।


हाँ.. यहीं तो है मेरा 2022 का resolution.

मैं खुद सफल और स्वस्थ रहकर दुसरों को भी यही खुशी देना चाहती हूँ।

पूनम धूत, वापी

खेल खेल में

1. Which knot is different?



2. Which date is different from others?

- A 1584
- B 1692
- C 1729
- D 1809
- E 1980

पिछले साल ‘खेल खेल में’ में सबसे ज्यादा हिस्सा ले कर इनाम पाने वालों के नाम हैं-

Darshan Budheliyam, Rahul Patel



पिछले अंक में प्रकाशित रिडल्स के सही जवाब है...

1. 63 (As you move from left to right, double each no and add 1 to get the next no)
2. Dholak, clothes can also be considered

रिडल्स के सही जवाब देने वालों के नाम हैं...

Surat- Darshan • Vapi- Priyanka Dubey, Shubham Maheshwari • Ahmedabad- Rina Desai, Yogesh Poddar

रिडल्स के सही जवाब आपको 15th May तक भेजने है।

जिनके भी जवाब सही होंगे, उनमें से लकी ड्रॉ के द्वारा 5 नाम चुन कर संवाद के अगले अंक में उत्तर के साथ प्रकाशित किए जाएँगे।

GLIMPSE OF EVENTS



Vipul Vashi's birthday celebration at Ambethi Factory, Vapi



Visit to Vijay Singh Sodha's Home Town



Holi at MLL House, Vapi



Congratulations to Yaduraj Singh Bhati on his Wedding.



Four New Vehicles Mahindra Blazo & TATA Sigma added to our Fleet.



Vastu Tips
for Home

दैनिक क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण नियम

जो ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है वो मुख्यतया ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, चुम्बकीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, चन्द्र ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। आज इस लेख में मैं आपको बताऊँगा की अगर आपका घर पूरी तरह वास्तु के अनुरूप न भी हो तो भी आप किस तरह कुछ कार्य करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर और अपने जीवन दोनों में बदलाव ला सकते हैं जो आपके स्वास्थ और सुखमय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

मनुष्य का दैनिक कार्य प्रातःकाल उठने से शुरू होता है। सर्व प्रथम प्रातःकाल उठते ही धरती को प्रणाम करें जिसने आपको आश्रय दिया जिसकी गोद में आप सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं।

अगर आप दैनिक रूप से पूजा नहीं करते हैं तो नियम बनाये की रूनान के बाद भगवान के चरण स्पर्श करें, धूप बत्ती जलाएँ और घंटी को कुछ समय तक के लिए बजाये और मन ही मन अपने और परिवार के लिए कुशल मंगल की प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो घंटी को अपने घर के हर हिस्से में बजाएँ। भगवान की प्रार्थना करने के बाद मन ही मन आपको बोलना है

नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशाया भिरत प्रभो ।

धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा ॥ ।

कभी भी उत्तर और पूर्व दिशा में गन्दगी न करे उत्तर और पूर्व का एरिया जितना हो सके उतना साफ़ और खूबसूरत और खुला रखिये। घर की दीवारों पर हल्के रंग ही इस्तेमाल करें। घर में तुलसी का पौधा जरूर रखिए और शाम को रोज एक दिया तुलसी जी के पास जलाएँ।

इस तरह आप अपने दैनिक जीवनचर्या में कुछ अलग करके अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को नियमित रूप से बनाये रख सकते हैं।



सचिन त्रिपाठी, वापी